



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 462 राँची, बृहस्पतिवार 3 मई, 2018 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

3 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 (शक)

100/पूर्व अनु.-1/झार-वि.स./2/2018 :- यतः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में **61-सिल्ली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य **श्री अमित कुमार** को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(इ) के प्रावधानों के तहत दोष सिद्धि के कारण निरहृत किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक **23 मार्च, 2018** से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

- यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 2 जून, 2018 (शनिवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 10 मई, 2018 (बृहस्पतिवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 11 मई, 2018 (शुक्रवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 14 मई, 2018 (सोमवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 28 मई, 2018 (सोमवार)

(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 2 जून, 2018 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

के० एन० भार,

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

3rd May, 2018/13 Vaisakha, 1940 (Saka)

No.100/ES-1/JKD-LA/2/2018:- WHEREAS, the seat of Sh. Amit Kumar, in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from **61-Silli** Assembly Constituency in the State, has become vacant on 23rd March, 2018 by reason of his conviction leading to disqualification under Section 8 of Representation of People Act, 1951 and Article-191(1)(e) of the Constitution; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said **61-Silli** Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before the 2nd June, 2018 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 10th May, 2018 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 11th May, 2018 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 14th May, 2018 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 28th May, 2018 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 2nd June, 2018 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00A.M to 3.00P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

K.N.BHAR,
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA